



उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय), भारत सरकार

Centre for High Technology

(Ministry of Petroleum & Natural Gas), Govt. of India

स.उ.प्रौ.के./प्रशा./3.17/2329

दिनांक 6.3.2020

अनुभाग अधिकारी (OR-I)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: दिनांक 18.3.2020 का राज्यसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न डायरी सं. S5388
(संदर्भ: डिक्लाईन इन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स)

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 5.3.2020 का अवलोकन करें जो कि राज्यसभा के पटल पर 18.3.2020 को रखा जाना तय हुआ है।

राज्यसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न डायरी संख्या S5388 के प्रश्न का उत्तर देने हेतु अनुपूरक सामग्री उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा प्रेषित की जा रही है।

धन्यवाद,

भवदीय

(सत्यवीर सिंह)

संयुक्त निदेशक (एच आर)

संलग्नक: यथा उपर्युक्त

का. प्रति:

- कार्यकारी निदेशक
- निदेशक

ओ.आई.डी.बी. भवन, टॉवर ए, 9वाँ तल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 73, नोएडा-201316 (उ.प्र.)

OIDB Bhawan, Tower "A", 9th Floor, Plot No. 2, Sector-73, Noida - 201316 (U.P.)

Tel.: Fax: 91-120-2593780/2593782, Email:@cht.gov.in, Website : www.cht.gov.in

Liaison Office: C/o OIDB, 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi-110 001



No.: CHT/ED/06/2329

06.03.2020

Sub: Rajya Sabha Provisionally Admitted Question: Diary No: 55388 dated 5.3.2020 to be answered on 18.03.2020 regarding Decline in Production of Petroleum Products

Q (a) Whether there has been a decline in the production of petroleum products in the country ;

Ans. (a) The year-wise production of Petroleum Products in the country is furnished below :

(Figs. in Million Metric Tonne)

Year	Total Production of Petroleum Products
2015-16	231.9
2016-17	243.5
2017-18	254.3
2018-19	262.4
Apr'18- Jan'19 (P)	219.0
Apr'19- Jan'20 (P)	218.2

Source : PPAC ; P: Provisional




The production of petroleum products in the country has consistently increased from 2015-16 to 2018-19. During 2019-20, the production from Apr'19 to Jan'20 is marginally lower by about 0.8 MMT compared to the corresponding period of the previous year i.e 2018-19.

Q (b) If so, what is the reason for the decline; and

Ans.(b) The marginal shortfall is on account of shutdown for implementation of BS-VI quality upgradation project almost at all refineries.

Q (c) The action plan of the Government to increase production?

Ans.(c) As per the Capacity expansion plan indicated by the Refining Industry upto 2030, the refining capacity will go up from current 249.4 MMTPA to about 443 MMTPA by 2030, with the brownfield expansion of existing refineries (by 125 MMTPA) and Greenfield Projects at Barmer, Rajasthan (9 MMTPA) and in West Coast, Maharashtra (60 MMTPA).

Prepared by		Approved by		Seen by	
Signature		Signature		Signature	
Name	D. Kiran Kumar	Name	P. Raman	Name	K.K. Jain
Designation	Joint Director-CHT	Designation	Director-CHT	Designation	ED-CHT
Mobile No.	9440694560	Mobile No.	9920536279	Mobile No.	8586975950

PROVISIONALLY ADMITTED QUESTION FOR THE RAJYA SABHA

Starred /Unstarred Diary No.-- S5388

The Question Will be put down for -- 18/03/2020

Answer on the Ministry Department -- Petroleum and Natural Gas(PET)

Decline in production of petroleum products

Shri K.J. Alphons: Will the Minister of Petroleum and Natural Gas be pleased to state

- (a) whether there has been a decline in the production of petroleum products in the country;
- (b) if so, what is the reason for the decline; and
- (c) the action plan of the Government to increase production?

aa